



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112023-249851
CG-DL-E-02112023-249851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4577]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2023/कार्तिक 11, 1945

No. 4577]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2023/KARTIKA 11, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2023

का. आ. 4765(अ).—केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 (2023 का 15) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 दिसंबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं 11/61/2021-एफसी]

रमेश कुमार पाण्डेय, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd November, 2023

S.O. 4765(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Forest (Conservation) Amendment Act, 2023 (15 of 2023), the Central Government hereby appoints the 1st day of December, 2023 as the date on which the provisions of the said Act shall come into the force.

[F. No. 11/61/2021-FC]

RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests